



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER**

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8632 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Khairthal has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Khairthal. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

नगर पालिका खैरथल (अलवर) राज.

प्रपत्र क

वार्ड न.	सीमाओं का विवरण	जनसंख्या 2011			विशेष विवरण
		कुल	अनु० जाति	अनु० जनजाति	
1	मोबाइल टावर से शुरू कर वहां से पूर्व की ओर घूमकर छाजूराम सैनी के मकान को शामिल करते हुए नगरपालिका पार्क तक वहां से उत्तर की तरफ पक्की सड़क पर चलते हुए गोविन्द राम कल्ला के मकान को शामिल करते हुए होली दहन को शामिल करते हुए उत्तर की तरफ चलते हुए तालाब के किनारे से पूर्व को घूमकर प्रभाती के मकान को शामिल कर	1159	137	3	

	सड़क पर उत्तर की ओर चलते हुए फाटक न. 92 सीताराम के मकान से रेलवे लाइन के सहारे-सहारे चलकर फाटक न. 91 तक वहां से उत्तर की ओर घूमकर सहदपुर बाग को शामिल करते हुए धर्मपाल हरिजन को शामिल कर किरवारी सीमा तक वहां से कुंडला सरदार दयाल सिंह वहां से राजस्व सीमा साथ साथ उमराव डाला तक वहां से आरा मशीन को शामिल कर डामर की सड़क पर खैरथल की ओर चलते हुए शैलजा केशर ढाणी मालियों को शामिल कर बारादरी वाले कच्चे रास्ते पर चलकर कैलाश सैनी को शामिल कर अमर सिंह सैनी को शामिल कर मोबाइल टावर तक				
2	डॉ रामेजा के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मकान महेश पुष्करना, मदन छंगाणी के मकान से सड़क क्रॉस कर ग्यारसा के मकान को शामिल करते हुए हरनारायण के मकान व बनवारी को लेते हुए मुरारी लाल गुप्ता के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर गली में मकान हेमराज मास्टर व मंदिर हरदास को शामिल कर वहां से पश्चिम की ओर घूमकर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मकान आसनदास ज्ञान पनवाड़ी को शामिल करते हुए गली के कोने तक वहां से उत्तर की ओर घूमकर समस्त दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मदन मान्धू तक वहां से सड़क क्रॉस कर बंशीधर के मकान को लेकर देवदत्त जोशी के मकान के कोने तक वहां से गली में उत्तर की ओर मुड़कर दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए सड़क क्रॉस कर सीताराम के मकान को शामिल करते हुए प्लाट तारा खाती	1014	318	0	

	को शामिल कर पूर्व की ओर चलते हुए मकान तनसुख महादेव प्रसाद कल्ला मंदिर को शामिल करते हुए सुनील रामेजा, वहां से गली में पूर्व की ओर मुड़कर दाहिने हाथ की आबादी को शामिल कर डॉ. रामेजा के मकान तक.				
3	रसगन रोड के मोड़ से विधुत ट्रांसफार्मर से उत्तर की ओर हरसौली रोड पर चलते हुए काशीराम के मकान को शामिल कर केशर के सामने वाली आबादी व पीर बाबा को शामिल करते हुए कपास फैक्ट्री व एस्सार पेट्रोल पंप को शामिल करते हुए मोड़ से दायें हाथ की आबादी, मकान फ़तेह सिंह, बाबूलाल स्टोन कटर मशीन को शामिल करते हुए नगरपालिका सीमा तक वहां से दक्षिण के ओर गदडियों की ढाणी, गोरधन की ढाणी को शामिल करते हुए खैरथल सीमा के साथ-साथ चलकर रोड क्रॉस कर हुसैनपुर रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए सुगन गुर्जर को शामिल करते हुए लुद्धन के मकान को शामिल करते हुए मकान अमीचंद, गगाराम के मकान तक, वहां से पूर्व की ओर राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए मंगतियों की ढाणी, ईसर का कुआं, हनुमान मंदिर तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए पहाड़ के साथ-साथ बाएं हाथ की आबादी, 132 केवी जीएसएस को शामिल करते हुए रोड क्रॉस कर पेहलियों की ढाणी को शामिल करते हुए रसगन रोड पर खैरथल की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए रसगन रोड के मोड़ पर विधुत ट्रांसफार्मर तक.	723	213	10	
4	रसगन रोड से हुसैनपुर रोड पर चलते हुए दाहिने हाथ की आबादी को शामिल	893	5	0	

	<p>करते हुए माता मंदिर को शामिल करते हुए मकान पप्पूराम, बाबूलाल गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए मकान प्रताप पुत्र हाजिय के मकान को शामिल करते हुए मकान सीताराम, मंशाराम के मकान को शामिल कर मकान पतराम, लेखलाराम को शामिल करते हुए मकान बदलू तक वहां से पश्चिम की ओर घूमकर राजस्व सीमा के साथ साथ चलते हुए समस्त दाहिने हाथ की आबादी को शामिल करते हुए कृषि सीमा तक वहां से उत्तर की ओर राजस्व सीमा के साथ साथ चलते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए रामोतार, बलबीर, बनेसिंह, दाताराम के मकान को शामिल करते हुए रसगन रोड तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर खैरथल की तरफ चलते हुए दायें हाथ की आबादी, वीर सिंह के मकान को शामिल करते हुए हुसैनपुर के रोड तक.</p>				
5-	<p>हरसौली रोड पर श्रीराम गुर्जर की दुकान से शमशान रोड पर चलते हुए अम्बेडकर भवन, संस्कृत विध्यालय. शमशान घाट को शामिल करते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए प्रदान संस्था, काली माता मंदिर राजस्व सीमा तक वहां से पश्चिम की ओर राजस्व सीमा के साथ साथ पहाड़ तक वहां से पहाड़ की वाल के साथ साथ उत्तर की ओर चलते हुए बंजारा आबादी, भूडावाली आबादी, नवोदय स्कूल को शामिल करते हुए पहाड़ के पास तिबारा को शामिल कर रसगन रोड तक वहां से पूर्व की ओर चलकर यादव शमशान को शामिल करते हुए धर्मशाला तक वहां से खैरथल की ओर मुड़कर अम्बेडकर छात्रावास को शामिल कर भरपाई की दुकान तक वहां</p>	1251	522	22	

	<p>से सड़क क्रॉस कर चंद्रभान की दुकान के पास से गली में पूर्व की ओर चलते हुए मकान लखमीचंद को शामिल कर हैंडपंप तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए शिव आइसक्रीम फैक्ट्री को शामिल कर वहां से गली में पूर्व की ओर मुड़कर हुकमचंद के मकान को शामिल करते हुए सड़क तक वहां से अस्पताल की ओर चलते हुए मकान मोतीराम हरिजन नवल हरिजन के मकान से पुष्करना के खाली प्लाट लाजपत व्यास को शामिल करते हुए ऊपर चलते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए रामसहाय सैनी, मुरारीलाल सैनी, उमाशंकर सैनी व नरेश की दुकान बिल्डिंग मेटेरियल को शामिल कर वहां से सड़क क्रॉस कर श्रीराम गुर्जर की दुकान के कोने तक.</p>				
6	<p>पुराना अस्पताल रोड पर जुम्नन हरिजन के मकान से पश्चिम में रस्ते पर चड़कर समस्त दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए शिव आइसक्रीम फैक्ट्री के सामने वाली आबादी को शामिल करते हुए मूलाराम सिन्धी की दुकान तक वहां से गली में पश्चिम की ओर मुड़कर दायें हाथ की आबादी को शामिल कर भूपसिंह के मकान को शामिल कर मकान चंद्रभान यादव को शामिल करते हुए हरसौली रोड पर रूपवाला कुआं तक वहां से रोड पर हरसौली की तरफ चलते हुए समस्त दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए दुकान हरफूल कँवर सिंह को शामिल कर इंडियन आयल पेट्रोल पंप को शामिल कर ध्वस्त बारादरी तक वहां से पूर्व की ओर कच्चे रास्ते पर चलते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए पूनम गिरी तक वहां से सड़क</p>	824	7	0	

	<p>क्रोस कर बाबु के मकान, राजू टाइप वाले के मकान को शामिल कर कोने पर रविशंकर पुत्र विनोदी लाल के मकान तक वहां से मुड़कर पश्चिम की ओर मुड़कर देवेन्द्र पंजाबी के मकान को शामिल कर समस्त दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए सड़क क्रोस कर मकान लाजपत राय, रविशंकर पटवारी के मकान को शामिल करते हुए जुम्मन हरिजन के मकान तक.</p>				
7	<p>गर्ल्स स्कूल के पास विनोदी लाल गुप्ता के मकान से शुरू कर उत्तर की ओर चलते हुए हरिओम सत्संग भवन को शामिल करते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए राधाकिशन के मकान श्यामसुंदर के मकान को शामिल करते हुए दयानंद पनवाड़ी के मकान को शामिल कर खेडा देवत तक वहां से पश्चिम की ओर घूमकर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए ज्ञान पनवाड़ी को रघुनन्दन डाटा को शामिल कर गली में चलते हुए उज्जवल आचार्य के मकान को शामिल कर महेश सैन के मकान तक वहां से गली में दक्षिण की ओर घूमकर दायें हाथ की आबादी मंदिर योगेश खेडापति कैलाश मास्टर के मकान तक वहां से सड़क क्रोस कर होतचंद पटवारी के मकान को शामिल करते हुए पानी की टंकी को शामिल कर बाएं हाथ की आबादी शामिल कर रामेश्वर दयाल पटवारी की दुकान तक वहां से पूर्व की ओर घूमकर विनोदी का भट्टा शामिल करते हुए वाटर वर्क्स के कुँए तक वहां से सड़क क्रोस कर आला के मकान, ईसर सैनी गोविन्द प्रजापत का मकान से शादी नाथ के मकान को शामिल करते हुए वहां से कब्रिस्तान के डंडे के सहारे</p>	1211	116	0	

	सहारे नसरू के मकान तक वहां से कृषि उपज मंडी के डंडे के पास में पूर्व को चलकर मामचंद वाल्मीकि के खेत की सीमा तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए बस स्टैंड के डंडे के साथ-साथ चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर जगदीश सुनार के मकान को शामिल कर डॉ. बाल्याण के मकान व दुकान को शामिल कर सड़क क्रॉस कर जयनारायण की दुकान व मकान परतिया मास्टर विनायक लैब धर्मशाला व बालिका स्कूल को शामिल कर विनोदी के मकान तक.				
8	हरसौली रोड पर ज्ञानानंद आश्रम से प्रारंभ कर मामा ईट वाला को शामिल कर शमशान रोड पर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी कालू की आरा मशीन को शामिल करते हुए सड़क पर चलते हुए दलीप कुमार की कृषि भूमि मामचंद हरिजन की कृषि भूमि को शामिल कर राजस्व सीमा तक वहां से पूर्व की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी बिजली किन्नर को शामिल कर राजस्व सीमा के साथ साथ चलते हुए बाईपास सड़क तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी मकान रामकंवार पीपल के पेड़ को शामिल करते हुए सड़क क्रॉस कर भौंटा जोगी पुरानी राजीव गाँधी पाठशाला (मदरसा) को शामिल कर मंडी की दीवार के पास पास चलते हुए इकरामुद्दीन के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए दीनानाथ जोगी बाती जोगी, श्यामू जोगी व शादीनाथ के नए मकान को शामिल कर शबाना के मकान को शामिल कर ज्ञानानंद आश्रम तक.	863	213	0	
9	प्रहलाद झालानी के मकान से शुरू कर शांति कोलन के मकान को शामिल करते	975	0	0	

<p>हुए रमेश मास्टर के मकान को शामिल कर सड़क से घूमकर पुराने अस्पताल की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मोती पनवाड़ी रंगी ठेकेदार के मकान को शामिल करते हुए प्रमिल जसोरिया के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर शिव मंदिर को शामिल करते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए सुभाष सैन के मकान तक वहां से पूर्व की ओर गली में मुड़कर परिवाली हवेली के पीछे से चलते हुए डाटा की पुरानी हवेली को शामिल कर हैंडपंप गाँधी चौक तक वहां से दाताराम की हवेली मकान हरदयाल को शामिल कर वहां से पूर्व की ओर नीचे चलते हुए ओमप्रकाश के मकान तक वहां से सड़क पर उत्तर की ओर चलकर मकान मुरारीलाल हेड के मकान को शामिल कर गली में पश्चिम की ओर मुड़कर अमित दुलानी व शंकर लाल पुष्करना के मकान को शामिल कर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए दिलीप गिरधारी के मकान को शामिल कर वहां से मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हुए मकान हाथीराम लोढ़ा को शामिल कर गली में चलते हुए वहां से उत्तर की ओर घूमकर समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर मकान दादानी भवन को शामिल कर मकान सेवाराम मेवाराम के मकान तक वहां से सड़क क्रॉस कर उत्तर की ओर ढलान से उतरते हुए गनपत खाती के मकान व राजाराम की आरा मशीन को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर मुड़कर घनश्याम डिश वाले के मकान को शामिल करते हुए हरीश सिन्धी के मकान तक वहां से दक्षिण की तरफ</p>				
---	--	--	--	--

	मुरली देवेन्द्र दिलीप डिश वाले के मकान को शामिल कर सड़क क्रॉस कर प्रहलाद झालानी तक .				
10	फाटक न. 92 से दक्षिण की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी किशन के नए मकान लादुडा को शामिल करते हुए मकान ख्याली पेंटर सतीश लोढ़ा को शामिल कर मकान रमेश पुत्र तनसुख तक वहां से सड़क पर नीचे उतारकर पूर्व की ओर चलकर मकान मुकेश पुत्र तनसुख को शामिल कर मामा सुसु के मकान को शामिल कर आधी डाबर के खेत को शामिल कर रेलवे लाइन तक वहां से मुड़कर रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर पश्चिम को चलते हुए फाटक न. 92 तक	781	640	0	
11	श्याम की चक्की से चलकर उपर की तरफ चलकर रामनिवास वैध तक मकान राधेश्याम को शामिल कर दक्षिण की ओर चलते हुए अशोक डाटा घनश्याम मास्टर व मदन गुप्ता की दुकान तक वहां से पूर्व की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मकान भगवान सिन्धी शीला नर्स को शामिल कर दुकान मांगेराम को शामिल कर आहूजा मेडिकल स्टोर तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर मकान मनीराम सीताराम नेतराम को शामिल करते हुए मातादीन के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर मकान शेरसिंह भवानी पार्षद रतन लाल माता मंदिर तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मकान प्रमोद मिस्त्री को शामिल करते हुए रेलवे लाइन के पास तक वहां से हरसौली की ओर चलते हुए चौधरी की आधी कृषि भूमि तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर	1178	839	0	

	बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मोहन नत्थन के डाबर वाले आधे खेत को शामिल करते हुए मकान सुरताराम को शामिल कर सड़क क्रॉस कर श्याम की चक्की तक.				
12	अम्बेडकर सर्किल पर मंगलराम जाटव के मकान से शुरू कर उत्तर की ओर चलकर पार्क के कोने तक (शिव मंदिर) वहां से पूर्व की ओर चलते हुए मकान कालूराम पुत्र देवीसहाय को शामिल कर वहां से दुकान व मकान मोहन लाल कुशलाराम को शामिल कर छोटेलाल के मकान तक वहां से उत्तर की ओर घूमकर मकान बबलीराम पुत्र नंदराम को शामिल करते हुए समस्त दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए रेलवे लाइन तक वहां से रेलवे लाइन के साथ साथ स्टेशन की ओर चलते हुए चाँद वाला कुआँ को शामिल कर फाटक तक वहां से शनि मंदिर को शामिल करते हुए सिनेमा रोड पर अनाज गोदाम को शामिल करते हुए हंसराज की दाल मिल के कोने तक वहां से दक्षिण की ओर घूमकर खंडेलवाल गैराज तक वहां से दायें हाथ की आबादी को शामिल कर रामोतार मास्टर सिहाली वाल (खुर्द) वाले के मकान को शामिल कर चंद्रप्रकाश मास्टर सुरेश चन्द गुप्ता बम्बोरा वाले के मकान तक वहां से किरोड़ीमल गुप्ता के मकान को शामिल कर बाबु माली के मकान को शामिल कर राजेंद्र कुमार पीपली वाले की चद्दर वाले की दुकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए समस्त दायें हाथ की आबादी महावर कॉटेज भजनलाल नमक वाले की दुकान गजानंद जोडीया वाले की लोहे की दुकान प्रमोद सैन की दुकान बल्ली की दुकान	1260	768	0	

	पुलिस थाना पुराणी चुंगी नाका तक वहां से सड़क क्रॉस कर मंगलराम जाटव के मकान तक.				
13	सिनेमा रोड से अनिल अग्रवाल की दुकान से प्रारंभ कर विश्वास के मकान को शामिल कर मकान राकेश मैनपुर वाले तक वहां से घूमकर पूर्व की ओर चलते हुए घनश्याम महावर गुरजारी मास्टर के मकान को शामिल कर हनुमान मुनीम तक वहां से तीतरका वाले के मकान को शामिल कर उत्तर की ओर चलते हुए खंडेलवाल नर्सिंग होम को शामिल कर लिंक रोड तक वहां से पूर्व की ओर चलते हुए सुभाष की दुकान प्रभाकर स्टोर गोविन्द जसोरिया की अग्रवाल स्टोर की दुकान को शामिल करते हुए गिर्राज महाजन मोती हलवाई रामबाबू आर डी की दुकान कलकत्ता रेडीमेड स्टोर सोनी एम्पोरियम को शामिल करते हुए योगेश गुप्ता के मकान को शामिल कर बेंगल्स स्टोर से अगले मकान तक वहां सड़क क्रॉस कर पश्चिम की ओर चलकर मनोज शर्मा के मकान को शामिल कर खाली भूमि के सहारे से मंडी की दीवार के सहारे चलते हुए बाईपास रोड तक वहां से उत्तर की ओर घूमकर मकान चौधरी को शामिल कर मंडी गेट को शामिल कर कृषि उपज मंडी की दीवार के साथ साथ घूमकर मामचंद वाल्मीकि कृषि भूमि तक. वहां से उत्तर की ओर घूमकर डोल के सहारे सहारे बस स्टैंड की दीवार तक वहां से दीवार के साथ साथ चलते हुए जलदाय विभाग की बोरिंग तक वहां से दक्षिण की ओर घूमकर मन्नू की दुकान नगरपालिका कार्यालय सिनेमा परिसर के साथ साथ चलकर योगेश गुर्जर के मकान रामोतार	1250	62	0	

	खाती को शामिल कर लोहे की जाली बनाने वाली दुकान तक वहां से सड़क क्रॉस कर अनिल अग्रवाल की दुकान तक.				
14	पुराना टेलीफोन एक्सचेंज (रुपेश मशीनरी स्टोर) से शुरू होकर उत्तर की ओर चलकर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए कल्ला जनरल स्टोर कॅवर पनवाड़ी तक वहां से सड़क क्रॉस कर जयराम पुष्करना के मकान को शामिल कर बाल पुस्तक भंडार खंडेलवाल धर्मशाला को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए हैंडपंप तक वहां से मनोज डाटा के मकान को शामिल कर सड़क क्रॉस कर संजय रेडीमेड की दुकान को शामिल कर पुराना भूमि विकास बैंक, हरदयाल डाटा को शामिल कर सुरेश चन्द के मकान तक वहां से सड़क क्रॉस कर पिंगसिटी गेस्ट हाउस को शामिल कर पटवारी की तेल मिल को शामिल कर पप्पू पचरंगा तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर किशनलाल पुत्र सोहन लाल के मकान को शामिल करते हुए समस्त बाएं हाथ की समस्त आबादी को शामिल कर जगमोहन ठेकेदार को शामिल कर बड वालों की दुकान/मकान को शामिल कर पुराने टेलीफोन एक्सचेंज तक (रुपेश मशीनरी स्टोर तक)	1238	0	0	
15	मातोर रोड पर बालाजी हार्डवेयर से शुरू कर उत्तर की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए शंकर सिन्धी की दुकान तक वहां से पश्चिम की ओर घूम कर के.सी. मित्तल व चक्की को शामिल करते हुए जगदीश शर्मा को शामिल कर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए महादेव भवन को शामिल करते हुए दौलत राम की चक्की	1204	28	0	

	<p>तक वहां से दक्षिण की तरफ घूमकर बाएं हाथ की समस्त आबादी को शामिल कर राजेश सेठी के मकान तक वहां से पूर्व की ओर घूम कर बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर दिनेश बर्तन वाले के मकान को शामिल कर सीधा सड़क क्रॉस कर बाबु बोहरा के मकान को शामिल कर सीधा चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर राजेंद्र फगवाड़ा वाले के मकान को शामिल करते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी शामिल करते हुए मातोर रोड बालाजी हार्डवेयर तक.</p>				
16	<p>मातोर रोड पर यादव की दुकान से शुरू कर पश्चिम की तरफ चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर मुंशी राम, राजेश गुप्ता के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर बाएं हाथ की आबादी गायत्री मंदिर तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर बाएं हाथ की आबादी मकान जैन हाउस को शामिल कर खाली प्लाट तक वहां से सड़क क्रॉस कर बनवारी लाल गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर मणि के मकान तक वहां से बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए सुधीर ओड का मकान वहां से सड़क के साथ साथ चलते हुए भागीरथ जाटव के मकान रमेश सब्जी वाले की दुकान से खैरथल की सीमा तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर गत्ता फैक्ट्री राजस्व सीमा के साथ साथ चलते हुए मकान निर्मल कुमार शर्मा को शामिल करते हुए पूर्व की राजस्व सीमा के साथ साथ मकान हरिप्रसाद को शामिल करते हुए सड़क क्रॉस कर महमुदा की दुकान को शामिल करते हुए</p>	1154	48	9	

	<p>पूर्व की ओर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए दुलीचंद मास्टर, हरिराम खाती, महावीर प्रसाद वैध को शामिल कर रत्तीराम खटीक की दुकान/मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए रामावतार खाती बीडी यादव के मकान व गुलाब चन्द के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर पुरुषोत्तम बाबूलाल विजय कुमार के मकान को शामिल कर खाली प्लाट तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर लहरीराम चौधरी के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर घूमकर गोरीशंकर के मकान को शामिल कर सीधे बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर मोहन पार्षद की दुकान तक वहां से सड़क क्रॉस कर यादव की दुकान तक.</p>				
17	<p>रेलवे फाटक के पास महादेव इसरानी की दुकान से शुरू कर दक्षिण की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए दुर्गा जनरल स्टोर दीपाली मेडिकल महावर भवन होते हुए मुरारी तेल वाले की दुकान अग्रसेन चौक को शामिल करते हुए इन्दर ज्यूस वाले की दुकान को शामिल कर मोहन पंडित की दुकान तक वहां से पूर्व की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए गोरी शंकर के सामने खाली प्लाट तक वहां से उत्तर की ओर चलकर सुरेन्द्र चौधरी के मकान तक वहां से पूर्व की सड़क पर घूमकर हरिराम सिन्धी के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए के.एल.जी. स्कूल तक वहां से सड़क क्रॉस कर रेलवे लाइन के साथ-साथ उत्तर की</p>	740	80	3	

	ओर चलते हुए रेलवे स्टेशन तथा स्टेशन के पीछे की आबादी, रेलवे क्वार्टर को शामिल करते हुए रेलवे फाटक तक वहां से पश्चिम की ओर घूम कर महादेव इसरानी की दुकान तक .				
18	धीसाराम मार्ग के तरफ दक्षिण की ओर चलते हुए बायाँ हाथ की आबादी को सम्मिलित कर देशराज की दुकान जसवंत चौधरी ब्लाक शिक्षा अधिकारी के मकान से बलबीर सिंह के मकान तक, वहां से पूर्व की ओर नाली से बाएं हाथ की समस्त आबादी सम्मिलित कर छैलुराम चौधरी के मकान तक, वहां से तरफ दक्षिण की ओर मांगीराम मनोहरलाल, गणपत सिंह, कोलहराम के मकान तक वहां से तरफ पूर्व की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी सम्मिलित कर दयाचंद कुम्हार, शकुंतला, हरचंद स्वामी के मकान को शामिल कर पूर्व की ओर सीधा हरपाल के फार्म व मुरली के फार्म सम्मिलित कर इंजीनियरिंग पॉइंट तक वहां से तरफ उत्तर की ओर शराब गोदाम तक वहां से तरफ पश्चिम की तरफ चलते हुए बाएं हाथ की समस्त आबादी सम्मिलित कर हरपाल के फार्म महेंद्र कुमार शर्मा, चौखराज सुब्बी मेव रामबाबू तेल वाले को शामिल कर ताराचंद महाजन की दुकान तक.	850	43	0	
19	पेट्रोल पंप मातोर रोड के सामने शिव मंदिर से तरफ पूर्व की ओर चलते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल कर जटियाना के गुर्जर के मकान तक वहां से तरफ दक्षिण की ओर चलते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल कर पंडित छीतरमल के मकान को शामिल कर समस्त बाएं हाथ की आबादी रामचंद्र	1279	84	12	

	<p>सैन झम्मन सैन प्रताप यादव, सुभाष जाट बहरोड़ वाले के मकान नवाबदीन कुरसेद नूर मोहम्मद, सुन्नत तेली के मकान को शामिल कर सिवाना रोड तक रेल लाइन तक वहां से तरफ दक्षिण की ओर समस्त दायें हाथ की आबादी को शामिल कर राजू असगर मदरसा तक वहां से तरफ पश्चिम की तरफ पहाड़ी के कोने के पास खटीको को शामिल कर मूला खटीक, प्रहलाद के मकान तक वहां से तरफ पश्चिम की ओर अगवानी सीमा से लगकर पश्चिम की ओर दायें हाथ की आबादी को शामिल कर बांकीदास पुष्करना के कुँए तक, वहां से मातोर रोड खेली तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए केशवलाल के कुँए एवं दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए रोड के सहारे सहारे सीताराम जाटव का मकान रामविलास डाटा का प्लाट, जयगोपाल कीकरवाली, जयप्रकाश की दुकान फिर हॉंडा शोरूम से शिव मंदिर पेट्रोल पंप के सामने तक.</p>				
20	<p>रामसिंह पुत्र किशोरी के मकान से दायें हाथ की आबादी को लेकर मकान हरिसिंह सुरेश जुम्मा के मकान तक वहां से तरफ पश्चिम की ओर चलते हुए मकान जुम्मा बोदन के मकान तक वहां से तरफ उत्तर की ओर समस्त दायें हाथ की आबादी मकान चोमू पुत्र रोहिताश्व कुआँ मकान राधाकिशन कालूराम के मकान भानी बत्ती शंकर, भगवान के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर समस्त दायें हाथ की आबादी मकान मानु सिन्धी खेमराज हरिचंद किशन भारती की दुकान हवासिंह पुत्र रामजीलाल के मकान रामसिंह जुम्माराम के मकान होशियार सिंह पुत्र</p>	1451	1090	15	

	<p>नत्थुराम के मकान तक यहाँ से तरफ पूर्व की ओर चलते हुए पप्पी सिंह सरदार भाटडा के मकान तक वहाँ से तरफ पूर्व की ओर चलते हुए समस्त दायें हाथ की आबादी शामिल कर चरणसिंह चौधरी सरपंच के कुँए को शामिल कर महादेव इसरानी के कुँए तक वहाँ से तरफ दक्षिण की ओर चलते हुए खुशाल व्यास आत्माराम पुष्करना के कुँए तक वहाँ से तरफ पश्चिम की ओर चलते हुए रेलवे गेट न. 94 तक वहाँ से तरफ उत्तर की ओर चलते हुए समस्त दायें हाथ की आबादी सम्मिलित कर इन्दर की कुआँ से होते हुए रामसिंह पुत्र किशोरी की मकान तक.</p>				
21	<p>किशोरी के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए रेलवे बाउंड्री के साथ तुलसीराम के पुराने मकान को शामिल करते हुए रघुनाथ महाजन के मकान को शामिल करते हुए नारायण गुवारिया की दुकान/मकान को शामिल करते हुए गोपाल स्वीट्स से तेजू रोघा की दुकान तक वहाँ से पूर्व की ओर घूमकर दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए गाँधी गोठवाल से चलते हुए थानाराम के मकान व खाली प्लाट तक वहाँ से दक्षिण की ओर घूमकर रतनलाल के मकान को शामिल कर माया कौर से चलते हुए खाली प्लाट तक वहाँ से पश्चिम के ओर घूमकर दायें हाथ की आबादी शारदा ओमप्रकाश के मकान को शामिल कर गोपालदास/हरी के मकान तक वहाँ से गली में दक्षिण की ओर घूमकर रामप्रसाद के मकान को शामिल करते हुए वहाँ से दक्षिण की ओर घूमकर दायें हाथ की आबादी मकान सिब्वन को शामिल कर रोहिताश पूर्व चेयरमैन के</p>	1448	1046	1	

	पुराने मकान के पीछे वाले हिस्से को शामिल करते हुए किशोरी के मकान तक.				
22	लालसिंह की दुकान से प्रारंभ कर उत्तर की ओर रेलवे बाउंड्री व नाला के साथ साथ चलते हुए जगमोहन गुप्ता की दुकान तक वहां से मुड़कर पूर्व की ओर चलते हुए अमीर की चक्की को शामिल करते हुए विपुल मेडिकोज को शामिल करते हुए किशन गोपाल के मकान/दुकान तक वहां से मुड़कर दादरहेडा के रास्ते पर चलते हुए समस्त दायें हाथ की आबादी बनवारी लाल खाती सरदार मनोहर सिंह रोहिताश अरोड़ा मास्टर योगी मास्टर को शामिल कर जे.पी. सैन के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर घूमकर हजारा सिंह के मकान तक वहां से सड़क क्रॉस कर खाली प्लाट व इदरीश को शामिल करते हुए मदन मास्टर व टेकाड़ीया मास्टर से घूमकर पश्चिम में घूमकर समस्त दायें हाथ के मकानात को शामिल कर लक्खी के प्लाट/मकान तक वहां से उत्तर की ओर घूमकर सड़क क्रॉस कर हजारा सिंह के कोने तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए दायें हाथ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए लोहे के खम्भे व मकान सुनेरी को शामिल करते हुए महेंद्र कुमार मुन्ना लाल महाजन को शामिल करते हुए लाल सिंह की दुकान तक.	1518	210	1	
23	ईस्माइलपुर रोड पर मायाराम के मकान व दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुए विक्रम सिंह चौधरी पार्षद के मकान को शामिल कर समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मकान डॉ. खान वेटनरी गुरुनाम सिंह लखविंदर सिंह बलबिंदर सिंह का खाली प्लाट जवाहर	1241	395	5	

	बीएसएनएल वाले की दुकान तक यहाँ से पूर्व की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर गुरुद्वारा बलबीर दयासिंह भगत सिंह के मकान से सुरजीत बिजली वाले के मकान गोपीचंद कुम्हार के मकान से पूर्व की ओर कच्चे रास्ते में सीधे सीधे चलते हुए राजस्व सीमा तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हुए होटल ग्रीनलैंड शिवपुरम को शामिल कर आरा मशीन सैनिक धर्मकांटा सिंघानिया आयल मिल बीएसएनएल ऑफिस से मायाराम के मकान/दुकान तक.				
24	राजवती पूर्व चेयरमैन से उत्तर की ओर चलते हुए मदर कलावती स्कूल व बहादुर सिंह को शामिल कर चिम्मन सिंह के मकान तक वहां से पूर्व की ओर घूम कर दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए दादरहेडा रोड पर चलते हुए मंगल सिंह सरदार की चक्की सेवक सिंह ताले वाले को शामिल करते हुए धामाणी की फैक्ट्री को शामिल करते हुए सीधे नारायण का कुआँ से नगरपालिका सीमा तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए राजस्व सीमा के साथ साथ रोघा की डेयरी को शामिल करते हुए हसन के मकान के कोने तक वहां से उत्तर की ओर कच्चे रास्ते कृषि भूमि तक वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर सीसी रोड पर तोफिक खान के मकान के सामने दायें हाथ की आबादी को लेते हुए सीधे कच्चे रास्ते पर चलते हुए दोजी के मकान के कोने तक वहां से उत्तर की ओर घूम कर रास्ता क्रॉस कर मकान अंगूरी को शामिल करते हुए कच्चे रास्ते पर घूमकर	1322	348	0	

	सरदार के मकान व भूपसिंह मास्टर के मकान तोताराम मिस्त्री के मकान को शामिल कर राजवती के मकान तक.				
25	स्टार पब्लिक स्कूल से शुरू कर दक्षिण की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए नई खिरगची मारुतनंदन फैक्ट्री को शामिल करते हुए हरीश की होटल मन्नु के भट्टे को शामिल करते हुए एम.एल. इंडस्ट्रीज तक वहां से पूर्व की ओर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए महादेव पुष्करना के कुँए को शामिल करते हुए ददार्हेदा सीमा नाला तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए रामपुरियों की ढाणी देवदत्त जोशी पुष्करना व महादेव के कुँए टहटड़ा की सीमा के साथ साथ कच्चे रास्ते से कालू हरिजन के मकान को शामिल कर चौधरी के भट्टे को शामिल करते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए स्टार पब्लिक स्कूल तक.	1088	835	0	
26	कैलाश गोयल के खाली प्लाट से शुरू कर दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए जैन किराना की दुकान चक्की को शामिल कर गोपालिया मास्टर को शामिल करते हुए सहारा कार्यालय पुराना ठेके न. 01 को शामिल कर यादव ज्यूस की दुकान तक वहां से किशनगढ़ की ओर चलते हुए दायें हाथ की आबादी को शामिल कर गोपाल स्वीट्स जैन मशीनरी स्टोर यादव सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप तक वहां से ईस्माइलपुर रोड पर मुड़कर पूर्व की ओर चलते हुए मकान जगदीश अरोड़ा को शामिल करते हुए शर्मा फोरव्हील्स को शामिल करते हुए जिम को शामिल कर खाली प्लाट तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर पीरबाबा को	831	47	0	

	शामिल करते हुए कुआँ मुरली को शामिल करते हुए दायें हाथ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए अनिल जैन के मकान को शामिल करते हुए सरदार के मकान व खाली प्लाट कैलाश गोयल तक				
27	किशनगढ़ रोड गंदे नाले से किशनलाल गुवारिया के मकान से शुरू कर उत्तर की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी पोहप सिंह के मकान को शामिल करते हुए भदरानिया गैलेक्सी ग्रीनसिटी को शामिल कर सुल्तान मैन पुरानी चुंगी तिबारा बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर धनीराम की चक्की तक वहां से पश्चिम की ओर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए फार्म हाउस की दीवार के साथ साथ उत्तर की ओर चलते हुए पीपल के पेड़ तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए ज्ञान चन्द का कुआँ तुलसी सैनी के कुँए को शामिल करते हुए रामसिंह के खेत को शामिल करते हुए लिसना रोड तक वहां से दक्षिण की ओर घूमकर समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए कुआँ छोटेलाल आर.जी. वाले के कुँए को शामिल करते हुए लिसाना रोड पर चलते हुए गौरव पथ तक वहां से सड़क क्रॉस कर संतुराम सैनी की दुकान को शामिल करते हुए इंद्रकुमार सैनी के मकान भारत केटर्स का गोदाम बिजेंद्र सुनार के मकान को शामिल करते हुए श्रीराम बागड़ी मदन स्वामी को शामिल करते हुए घूमकर दक्षिण की ओर चलते हुए नमकीन की फैक्ट्री को शामिल करते हुए गंदे नाले के रोड तक वहां से मुड़कर पूर्व	1300	656	8	

	<p>की ओर चलते हुए मैन रोड से मुड़कर उत्तर की ओर चलते हुए रोड क्रॉस कर वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए नत्थुराम की फैक्ट्री तक वहां से पूर्व की ओर चलते हुए मकान रीको टंकी शिव मंदिर को शामिल करते हुए आहूजा फैक्ट्री इंडिया मेटल को शामिल कर ए-वन फैक्ट्री तक वहां से पूर्व की ओर इस्माइलपुर रोड होते हुए बाएं हाथ की समस्त आबादी को शामिल करते हुए राम धर्मकांटा रामेश्वर की आरा मशीन मदन गुर्जर का मकान पवन कुमार की कपास फैक्ट्री को शामिल कर दौलतराम कानूनगो का मकान इंडेन गैस गोदाम तक वहां से उत्तर की ओर दादरहेडा सीमा से लगते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए गोतम मन्नू का कुआँ श्यामू का कुआँ को शामिल कर पश्चिम की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए नारायणी कॉलोनी को शामिल कर एम.एल. इंडस्ट्रीज के बगल से सड़क क्रॉस कर रामनिवास गुवारिया के मकान तक</p>				
28	<p>नेहरु स्कूल से प्रारंभ कर पूर्व की ओर चलते हुए कन्हैयालाल कपडे वाले के मकान को शामिल करते हुए जे.पी. स्वीट्स वाले के मकान को शामिल करते हुए सियाराम महाजन के मकान तथा गोदाम के कोने तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी शांति कन्हैयालाल दुकान वाली को शामिल कर बाबू हलवाई के मकान को शामिल कर बालचंद मंगलानी तक वहां से पश्चिम की ओर घूमकर बनवारी लाल</p>	940	5	0	

	<p>पार्षद के मकान को शामिल कर गोदू चक्की वाले के मकान को शामिल करते हुए हरीश पुत्र तीर्थ दास रोचवानी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर घूम कर समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए मोहन लाल भगत होतुराम चक्की वाला को शामिल करते हुए भोजू के मकान को शामिल कर नेहरू स्कूल तक</p>				
29	<p>सपना ब्यूटी पार्लर की दुकान से उत्तर की ओर चलते हुए समस्त दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए राधेश्याम त्रिवेदी के मकान को शामिल करते हुए सीधे गंदे नाले तक वहां से गंदे नाले के साथ साथ चलते हुए किशनगढ़ रोड तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए शिवचरण मास्टर के मकान को शामिल कर अमरनाथ मास्टर तक वहां से सड़क क्रॉस कर स्वामी पाइप फैक्ट्री को शामिल करते हुए समस्त दायें हाथ की आबादी को शामिल करते हुए दोलू की कपास मिल को शामिल करते हुए सीधे रामबाबू अग्रवाल की पाइप फैक्ट्री तक वहां से पश्चिम की ओर घूम कर दायें हाथ की आबादी को शामिल कर सतीश हरियाणा मोहन सिन्धी आर्य भवन को शामिल कर आहूजा मेडिकल एजेंसी व पेशुमल की दुकान तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर दायें हाथ की आबादी हेमंत मिस्त्री को शामिल करते हुए रघुवीर सरदार की दुकान/मकान तक वहां से सड़क क्रॉस कर मांगीराम की दुकान को शामिल करते हुए बिजलीघर के डंडे के साथ साथ चलते हुए परमानन्द कपडे वाला पदम् कुमार के मकान को शामिल करते हुए रोघा के काम्प्लेक्स के पीछे से</p>	1144	52	0	

	चलते हुए लक्ष्मण सिंह तहसीलदार के मकान तक वहां से सड़क क्रॉस कर मोती पूरण तेल वाले के मकान को शामिल करते हुए सपना ब्यूटी पार्लर तक				
30	स्टेशन रोड पर मानू मच्छी वाले की दुकान से प्रारंभ कर आहूजा क्लिनिक बिंदी सरदार की दुकान हेमू कालानी चोक को शामिल कर स्वामी जनरल स्टोर अशोक डॉ. को शामिल करते हुए बाएं हाथ की आबादी झुलेलाल मंदिर को शामिल करते हुए सुरेस बेट्री वाले की दुकान को शामिल कर बिजलीघर को शामिल करते हुए बिजलीघर के डंडे के साथ साथ घूमते हुए रोघा काम्प्लेक्स को शामिल करते हुए सतराम दास सिन्धी धर्मदास सिन्धी को शामिल कर वहां से गली पार कर सोनू रामजीलाल के मकान को शामिल कर पूरण मंगलानी के मकान तक वहां से दक्षिण को चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर रहमल पंजाबी तक वहां से 40 फुट रोड पार कर भरत सब्जी वाले को शामिल कर पश्चिम की ओर चलते हुए राजू मास्टर के मकान तक वहां से दक्षिण को घूमकर चलते हुए डॉ. आहूजा के मकान को शामिल करते हुए राजू गोविन्दराम की दुकान तक वहां से गली पार कर मोठुमल के मकान को शामिल कर घनश्याम होटल वाले की दुकान तक वहां से मेन रोड पार कर सब्जी मंडी के कोने (ठेके) से पश्चिम की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी अनिल इलेक्ट्रॉनिक को शामिल करते हुए रेलवे फाटक तक वहां से दक्षिण की ओर सब्जी मंडी को शामिल करते हुए मानू मच्छी वाले तक	927	0	0	

31	उत्तर में सरदार धर्मसिंह के मकान से शुरू होकर चालीस फूटा रोड पर घनश्याम पीडीसी के मकान को लेकर पूर्व को मेघाराम भागू ताज होटल वाले के मकान को शामिल करते हुए वापिस दक्षिण की तरफ लेखू पनवाड़ी जयसिंह सरदार चुहड़ सब्जी वाला से वापिस धर्मसिंह तक के मकान तक बीच वाली समस्त आबादी यहाँ से किशनगढ़ बास रोड स्थित प्रवीण केवलानी टीकम केवलानी के मकान से तरफ उत्तर में सीधा चलते हुए हरी धोबी खेमराज केवलानी, नोतन दास गुरुजी के मकान झामनदास खजलानी के मकान तक यहाँ से चालीस फुटा रोड तरफ पश्चिम की ओर चलते हुए टहलपुरी गोस्वामी महादेव पुष्करना रामोतार पत्थरवाला के मकान को शामिल कर सीधे रेल पटरी तक यहाँ से रेल लाइन के सहारे सहारे दक्षिण पश्चिम की आबादी सूर्या मेडिकल तक समस्त आबादी से खैरथल किशनगढ़ बास रोड पर समस्त दायें हाथ की आबादी लालू कपडे वाले से प्रदीप केवलानी के मकान तक	1231	17	0	
32	तोलाराम भगतानी के मकान से प्रारंभ कर पूर्व की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल कर लीलाराम भगतानी के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए रूप रेडियो वाले के मकान तक वहां से पूर्व की ओर सड़क क्रॉस कर भगवान दास की दुकान मकान को शामिल कर व बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए गोविन्द मूलचंद सब्जी वाले के मकान तक वहां से मुड़कर उत्तर से पश्चिम की ओर मुड़कर समस्त बाएं हाथ की आबादी	773	2	15	

	शंकर वाच वाले को शामिल कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे की साइड के साथ साथ चलते हुए जेलोता वाले के मकान को शामिल कर विजय लाउड स्पीकर वाले के मकान तक वहां से मुड़कर दक्षिण की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए टावर वाले प्लांट तक वहां से गली क्रॉस कर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए तोलाराम भगतानी के मकान तक				
33	मेघसिंह चौधरी के कोने से उत्तर की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए लालू कपडे वाले के मकान को लेते हुए संपत सरोवर के खाली प्लाट तक वहां से पश्चिम की ओर घूमकर पप्पू भगत बीडी वाले के मकान को शामिल करते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए मोती तेल वाला वेदप्रकाश पाण्डेय राम सिन्धी को शामिल करते हुए पवन कुमार के मकान को शामिल करते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए सीसी रोड के कोने तक वहां से दक्षिण की ओर घूमकर रेलवे लाइन तक वहां से स्टेशन की ओर चलते हुए समस्त बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए फूली पतलिया वाली के मकान को शामिल कर सुखराम चौधरी के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को शामिल करते हुए रामस्वरूप टायर वाले के मकान कालू धोबी की चक्की गुरनानी अस्पताल को शामिल कर मेघ सिंह चौधरी तक	922	246	0	
34	सुरेश स्वामी की दुकान से उत्तर की ओर समस्त बाएं हाथ की आबादी को	844	187	5	

	<p>शामिल कर लिसाना कच्चा ग्रेवल रोड पर देवकी व छोटेलाल सैनी के मकान कृषि भूमि सम्मिलित करते हुए नांगल सीमा रज्जाक मेव के कुँए के पास तक वहां से तरफ पश्चिम नांगल सीमा पहाड़ी तक वहां से तरफ दक्षिण की ओर पहाड़ी के सहारे सहारे चलते हुए शशिभूषण की गोशाला को शामिल करते हुए जाट चौधरी के कुआँ, आदर्श विद्या मंदिर, हनुमान मंदिर के नीचे सामने की बाएं हाथ की आबादी शामिल कर कोडूमल का भट्टा मुरली टेलर अम्बाराम सुरता का कुआँ रामचंद्र यादव मुनीम पार्षद का मकान लच्छु डेयरी वाला गंदे नाले को क्रॉस करते हुए भागुपुरी के खेत तक वहां से तरफ पूर्व की ओर समस्त बाएं हाथ की आबादी शामिल करते हुए सुरजन सैनी, ओमी चान्ड़, कोडूमल, विजय चान्ड़, अतर सिंह यादव हुकम चन्द यादव मुरली महाराज जसवंत यादव लालचंद सैन के मकान तक वहां से तरफ उत्तर की ओर गंदे नाले के सहारे सहारे समस्त बाएं हाथ की आबादी शामिल कर कल्लूराम बावरिया सुरेश स्वामी की दुकान तक</p>				
35	<p>उत्तर पूर्व में किरवारी सड़क से पूर्व में स्थित खिल्लू मेव किशन कंजर की आबादी को शामिल करते हुए सीधा रहमान मेव की ढाणी उससे आगे अहीरान (यादवों) को शामिल करते हुए सीधा मंदिर के दक्षिण पश्चिम की रेलवे लाइन से लगती हुई समस्त आबादी छीतर पटवारी का मकान साधू मिस्त्री रमजान खान से संपत सरोवर तक यहाँ से मंदिर रोड की तरफ मुड़कर एम.एस. मॉडर्न स्कूल गजराज यादव रतन चौधरी</p>	1471	228	10	

माता के मंदिर से हनुमान मंदिर से पहले तक टहलपुरी का कुआँ हुकमचंद यादव से पूर्व की ओर पानी की टंकी से डीडी सैन का मकान की समस्त आबादी से शमशान घाट तक.				
योग :	38298	9487	119	

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका खैरथल

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।